

आदर्श प्रश्न पत्र - 2

हिन्दी (व्याकरण)

कक्षा - 9

समय : 45 मिनट

अंक : 25

उत्तरकुंजी

1. निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखिए- 4

दूरदर्शन वरदान या अभिशाप

दूरदर्शन विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज एवं मनोरंजन का प्रभावशाली साधन है। सन् 1925 में जे एल बेयर्ड ने इसके आविष्कार किया था। आज सम्पूर्ण विश्व में इसका जाल बिछ गया है। वर्तमान युग में यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ यह ज्ञान विज्ञान की बातों से परिचित कराता है। हमें घर बैठे ही देश - विदेश की खबरें और खेलों की जानकारी मिल जाती है। संचार का अत्यंत सशक्त यह साधन प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। जहा एक ओर इसने सम्पूर्ण विश्व को एक दूसरे के करीब ला दिया है वही दूसरी ओर विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होने वाले भिन्न -भिन्न कार्यक्रमों ने परिवार के ही लोगों को अलग- अलग कमरों में बंद कर दिया है। इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों व विज्ञापनों का लोग अंधानुकरण करते हैं। जो कदापि उचित नहीं। आवश्यकता है कि हम इसकी उपयोगिता को समझे और इसे मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध होने दे। अभिशाप नहीं।

2. दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए: 2

1. मैं पत्र लिखूँगा। (लिखूँगा/ लिखेंगे)

2. नृत्यांगना नृत्य करेगी। (की/ करेगी)

3. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल पहचानिए: 3
1. नर्स अभी दवाई लाएगी। - सामान्य भविष्यत् काल
 2. चील आकाश में उड़ती है। - सामान वर्तमानकाल
 3. बालक सो गया होगा। -संदिग्ध भूतकाल
4. निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के सर्वनाम के भेद पहचानिए: 3
1. जो समय का महत्व समझता है, वही दुनिया में उन्नति करता है। - संबंधवाचक सर्वनाम
 2. पिता जी! डिब्बे में क्या है? - प्रश्नवाचक सर्वनाम
 3. उसीने मेरी पुस्तक ली थी। - निश्चयवाचक सर्वनाम
5. निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पहचानिए: 3
1. वह शरारत नहीं करता। - निषेधवाचक
 2. शायद वह भी आएगा। - संदेहवाचक
 3. अपने नगर को स्वच्छ रखें। - आज्ञावाचक
6. वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए: 3
1. वह धीमी स्वर में बोली।
 1. वह धीरे स्वर में बोली।
 2. खेतों को पानी से सींचो।
 2. खेतों को सींचो।
 3. एक गरम कप चाय लाइए।
 3. एक कप गरम चाय लाइए।
7. निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए: 2
1. गुरु - गुरुता
 2. नेता - नेतृत्व
 3. सर्व - सर्वस्व
 4. बूढ़ा - बुढ़ापा

8. निम्नलिखित काव्य को ध्यान से पढ़कर, उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें।

5

कहते हैं, तारे गाते हैं

कहते हैं, तारे गाते हैं ।

सन्नाटा वसुधा पर छाया,

नभ में हमने कान लगाया,

फिर भी अगणित कंठों का यह राग नहीं हम सुन पाते हैं ।

कहते हैं, तारे गाते हैं ।

स्वर्ग सुना करता यह गाना,

पृथ्वी ने तो बस यह जाना,

अगणित ओस-कणों में तारों के नीरव आँसू आते हैं ।

कहते हैं, तारे गाते हैं ।

ऊपर देव, तले मानवगण,

नभ में दोनों गायन-रोदन,

राग सदा ऊपर को उठता, आँसू नीचे झर जाते हैं ।

कहते हैं, तारे गाते हैं ।

- 'हरिवंशराय बच्चन'

1 सन्नाटा कहाँ छाया है ?

क) तारों पर

ख) वसुधा पर

ग) गगन पर

घ) नभ पर

2 किसके गाने की आवाज़ हम नहीं सुन पाते हैं ?

- क) स्वर्ग
- ख) तारों
- ग) नभ
- घ) पृथ्वी

3 तारों के आसूँ कहाँ जाते हैं ?

- क) स्वर्ग की गोद में
- ख) तारों मेले में
- ग) ओस-कणों में
- घ) चांदनी में

4 निम्नलिखित शब्दों के लिए चार-चार पर्यायवाची शब्द लिखिए:

- वसुधा - धरा, भूमि, ज़मीन, पृथ्वी।
- नभ - आकाश, गगन, अम्बर, व्योम।